

Paul Merchants

Paul Merchants Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company CIN : L74900DL1984PLC018679

Corp. Office.: PML House, SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh-160022
Ph. 0172-5041740, 5041757, 5041792 Fax: 0172-5041713
Regd. Office: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg,
Naiafoarh Road. New Delhi-110015 Ph.: 011-48702000

www.paulmerchants.net info@paulmerchants.net

Corporate Relations Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

PML/BSE/CS/2022/696 Date: 23rd February, 2022

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF POSTAL BALLOT THROUGH REMOTE EVOTING PROCESS

INTIMATION UNDER REGULATION 30 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 ("LISTING REGULATIONS")

Dear Sir.

In view of the continuing Covid-19 pandemic and as per the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 23rd June, 2021 and 8th December, 2021, the Postal Ballot Notice along with the Explanatory statement has been dispatched on 22nd February, 2022 only through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses were registered with the Depositories as on cut-off date i.e. closing hours of 18th February, 2022 and to others entitled to receive the notice.

Please find enclosed herewith the copy of the Newspapers (The Financial Express and Jansatta) in which the Postal Ballot Notice through Remote E-voting has been published by the Company, pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Section 108 and 110 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The aforementioned newspaper publication may also be accessed on the website of the Company at www.paulmerchants.net.

Further, the details of the same as per Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Para No. 12 of Para A of part A of Schedule III of the said Regulations read over with SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/4/2015 dated September 9, 2015 is as under:-:

- (a) Date of Notice: The notice has been published in the Newspapers "Financial Express" (All editions) and "Jansatta" (Delhi edition) on 23rd February, 2022.
- (b) Brief details viz. agenda (if any) proposed to be taken up, resolution to be passed, manner of approval proposed etc.:-: As per the copy of publication of Postal Ballot Notice through Remote E-voting process attached.

You are requested to kindly take the same on your records.

Yours faithfully,

For PAUL MERCHANTS LIMITED

(HARDAM SINGH)
COMPANY SECRETARY CUM COMPLIANCE OFFICER
FCS-5046

SCO 829-830 SECTOR 22-A

Encl: Copy of the Newspapers

FINANCIAL EXPRESS

FOCUS ON 2-WHEELERS

Hero MotoCorp, BPCL tie up for EV charging infra

In the first phase, charging stations will be set up in 9 cities starting with Delhi and Bengaluru

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 22

STATE-OWNED BHARAT Petroleum Corporation (BPCL) and the world's largest manufacturer of motorcycles and scooters Hero MotoCorp have collaborated to set up charging infrastructure for twowheeled electric vehicles (EVs) across the country, the firms said on Tuesday.

"In the first phase, charging stations will be set up across nine cities starting with Delhi and Bengaluru. The network will be then expanded across the country with the aim to establish a high density of charging stations," stated a company statement.

The two firms will first set up a substantial charging infrastructure at BPCL's existing petrol pumps and may subsequently broaden the collaboration to develop more synergies within the EV ecosystem and

FE BUREAU

Mumbai, February 22

by IndusInd Bank.

tory update.

had said.

ing further details.

ZEE ENTERTAINMENT ENTER-

PRISES (ZEEL) on Tuesday said it

has filed an interlocutory appli-

cation before the National Com-

pany Law Tribunal's (NCLT's)

Mumbai bench, seeking dis-

missal of a petition filed earlier

NCLT, Mumbai, seeking an out-

right dismissal or rejection of

the petition filed by IndusInd

Bank on the ground that the fil-

ing is a breach of orders passed

by the Delhi High Court dated

February 25, 2021, and Decem-

ber 3, 2021, it said in a regula-

The petition was filed on

On February 4, ZEEL had

Monday, it said, without provid-

informed the BSE that the pri-

vate lender had moved the

banckruptcy court seeking a

payment of over ₹83 crore.

IndusInd Bank filed the petition

claiming to be a financial credi-

tor and had sought initiation of

Corporate Insolvency Resolu-

tion Process (CIRP) against ZEEL

under Section 7 of the Insol-

vency and Bankruptcy Code, it

to the Debt Service Reserve

Account Guarantee Agreement

(DSRA), which it entered with

IndusInd Bank for the term loan

SHRIRAM

SHRIRAM TRANSPORT

FINANCE COMPANY LIMITED

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and

public at large that our Kusmunda

Branch located at Ground Floor

ZEEL had said it was a party


ZEEL moves NCLT

seeking dismissal of

IndusInd Bank plea

FOR A GREENER FUTURE

■ The two firms will first set up a substantial charging infrastructure at BPCL's existing petrol pumps





■ It will be available for use to all two-wheeled EVs

adjacent business verticals.

BPCL had in September last year announced that it is converting 7,000 conventional petrol pumps into energy stations providing multiple fuelling options, which will include an EV charging facility also, in the medium to long term. Aligned with its vision to 'Be the Future of Mobility' and with its aim to drive growth of EVs, Hero MotoCorp has become the first automotive OEM (original equipment manufacturer) to tie up with the leading public sector undertaking (PSU) to set up charging infrastructure across the length and breadth of India. Hero MotoCorp will soon commence infrastructure development in

the two cities. Each charging station will feature multiple charging points, including DC and AC chargers, and will be available for use to all twowheeled EVs, the statement

"The entire user charging experience will be controlled by a Hero MotoCorp Mobile-App and will be a cashless transaction model," it said. "The massive Bharat Petroleum energy station network will also provide accelerated opportunities to expand the scope of operations and services. The companies may utilise the gateways created to make additional investments into building a robust EV ecosystem."

ecosystem for start-ups in the world, he said.

The Economic Survey THE NUMBER OF start-ups in 2021-22 had also mentioned the country is increasing sigthat the number of such firms nificantly with 10% being has grown remarkably over the added every year, an official last six years. said on Tuesday.

'Start-ups growing with 10% being

added every year'

PRESS TRUST OF INDIA

Kolkata, February 22

while a lot of work

has also been done in

the field of software-

start-ups is growing

significantly in the

country with 10%

being added every

"The number of

year. There has been signifi-

cant growth in the number of

companies and funding

organisations which are

attributing to this cause," he

start-ups in areas of core

the largest technology and

innovation ecosystem in the

country, comprising start-ups,

innovators, enterprises and the

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

E-tenders are invited in two parts (Part-I Technical Bid and Part-II Price Bid)

for the work of operation and maintenance of UPPCL's website. Bid

document (RFP) is available online on https://etender.up.nic.in as per

indicated below. Any changes in the Bid Schedule, corrigendum etc. shall

also be notified via same website only. Prospective bidders are therefore

(Refundable)

https://etender.up.nic.in

22.02.2022, 15.00 Hrs.

India has the third-largest

research, Malhotra said.

government.

RFP No. 02/UPPCL/RAPDRP-A/O&M of Website/2022

requested to regularly check the website for any updates.

But there is a need to build

The centre of excellence is

aided services.

"The number of new recognised start-ups has increased Nasscom Centre of Excellence for internet of things to over 14,000 in 2021-22 (IoT) and artificial intelligence from only 733 in 2016-17. As (AI) CEO Sanjeev Malhotra said a result, India has become the most of the start-ups are on the third-largest start-up ecosysapplication side, tem in the world

after the US and China," it said. More unicorns

are in the making in the country, Malhotra said, adding that the "funding pattern is getting healthier". In business

terms, a unicorn is a privately held start-up company valued at over \$1 billion.

Further, a record 44 Indian start-ups have achieved unicorn status in 2021, taking the overall tally of such firms in the country to 83, and most of these are in the services sector, the survey said.

The National Association of Software and Service Companies (Nasscom) has been providing the necessary ecosystem for nurturing start-ups, he added.

Details

Operation and maintenance of UPPCL's website

Rs. 2000/- + GST @ 18%) (Non-Refundable)

02/UPPCL/RAPDRP-A/O&M of Website/2022

Dated: 22.02.2022

Godrej Agrovet to focus on specialty chemicals in crop protection: Godrej Agrovet will focus on specialty products in the insecticide segment instead of generic chemicals used for protecting crops, said Balram Yadav, MD, Godrej Agrovet. He was speaking at the launch of Gracia in Pune. Gracia is an insecticide that helps control chewing, sucking pests in a variety of pulses and vegetables. **—FE BUREAU**

Camlin A KOKUYO

KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434 Regd. Office: 48/2, Hilton House Central Road, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093.

Tel. No.: +91-22-6655 7000; Fax No.: +91-22-2836 6579 Web: www.kokuyocamlin.com; E-mail: investorrelations@kokuyocamlin.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Company is seeking approval of its Members through postal ballot by way of Special Resolutions in respect of the following: 1. Re-appointment of Mr. Shriram S. Dandekar (DIN: 01056318) as Director in whole-time

employment designated as 'Vice-Chairman & Executive Director' for the period from 1st February 2022 to 31st January, 2023 and remuneration payable to him.

2. Remuneration payable to Mr. Satish Veerappa, Manager designated as 'Chief Executive Officer' for a period effective from 1st January, 2022 to 31st December, 2024.

The above said items were approved by the Board of Directors in its meeting held on 28th January, 2022 and 15th December, 2021 respectively.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website https://www.kokuyocamlin.com, website of National Securities Depository Limited ("NSDL") https://www.evoting.nsdl.com and the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited ("BSE") (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") (www.nseindia.com)

In compliance with the Circular No. 14/2020 dated April, 8 2020, Circular No. 17/2020 dated

April 13, 2020, Circular 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September

28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company has sent the Postal Ballot Notice on Monday, the 21st February, 2022 only through electronic mode to those Members whose e-mail address are registered with the Company, Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on 18th February, 2022 ("cut-off date"). The communication of the assent or dissent of the Members would only take place through the e-voting system. The Company has engaged the services of NSDL to provide remote e-voting facility to its

Members. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 23rd February, 2022 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 24th March, 2022. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting on the resolutions set out in the Postal Ballot notice:

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investorrelations@kokuyocamlin.com In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16

digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investorrelations@kokuyocamlin.com It is clarified that for permanent registration of email address, the members are requested to register their email address, in respect of electronic holding with the Depository

through their concerned Depository Participants and in respect of physical holding with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited (Unit: Kokuyo Camlin Limited), email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Tel No. 91-022-49186270 by following due procedure. For details relating to e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked question (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on

toll free no. 1800 1020 990/1800 22 4430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL, Email: evoting@nsdl.co.in/saritam@nsdl.co.in, Tel: 91-22-24994545. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. J. H. Ranade, Partner failing which Mr. Sohan J. Ranade, Partner failing which Ms. Tejaswi Jogal, Partner of M/s. JHR & Associates as

the Scrutinizer for conducting the e-voting process electronically in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced on or before 5.00 p.m. (IST) 26th March, 2022. The said results alongwith the Scrutinizer Report would be intimated to BSE and NSE and will also be uploaded on the Company's website: https://www.kokuyocamlin.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

For Kokuyo Camlin Limited

Place: Mumbai

Ravindra V. Damle Vice President (Corporate) &



Paul Merchants Ltd. (An ISO 9001:2015 Certified Co.)(CIN: L74900DL1984PLC018679) CORP. OFF.: PML House, SCO 829-830, Sector 22A, Chandigarh 160022 Ph.0172-5041786, Fax: 0172-5041709 E-mail: info@paulmerchants.net | Website: www.paulmerchants.net

REGD. OFF.: DSM 335, 336, 337, 3rd Floor, DLF Tower, 15, Shivaji Marg, Najafgarh Road, New Delhi-110015. Ph: 011-48702000 NOTICE OF POSTAL BALLOT THROUGH REMOTE EVOTING PROCESS

Notice is hereby given to the shareholders of PAUL MERCHANTS LIMITED pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the

Companies Act, 2013 (the "Act"), read together with the Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No. 33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 8, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, that the resolutions contained in the Postal Ballot Notice are proposed to be passed by the shareholders through postal ballot, only by voting through electronic means in compliance with the applicable provisions of the Act read with General Circular 14/2020 dated 08-04-2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020. The special business proposed to be transacted through the Postal Ballot Process through remote evoting as set out in the Notice, has been considered as unavoidable by the Board of Directors of the Company.

The dispatch of the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement, through permitted mode i.e. electronic means to Members. directors and auditors including Secretarial Auditors has been completed on 22 nd February, 2022.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility for voting by electronic means to its members to enable them to cast their votes electronically through remote evoting and the business may be transacted through the e-voting services provided by the Central Depository Services Limited (CDSL). The instructions for e-voting are given in the Postal Ballot Notice. Members are requested to note the following:

a. The remote e-voting will commence on Monday, February 28, 2022 (09:00 hours IST) and ends on Tuesday, March 29, 2022 (17:00 hours IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the

 The voting rights of the members (for voting through remote e-voting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 18-02-2022 (Closing hours) ("Cut-Off Date"). Aperson whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (close of business hours) only, is entitled for receiving the Postal Ballot Notice and for availing the Remote e-voting facility. A person who is not a shareholder as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Any person holds shares in Physical mode as on the Cut-Off Date, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company M/s Alankit Assignments Ltd, 1E/13, Jhandewalan Extn. New Delhi- 110055 (INDIA) Ph No.: 011-42541959, email id ramap@alankit.com or to Company at email id investor.redressal@paulmerchants.net. Those persons who hold shares in Demat mode as on the Cut-Off Date are requested to view the notes to the Postal Ballot Notice of the Company on the website of the Company at www.paulmerchants.net or on the website of CDSL (www.evotingindia.com) for instructions relating to remote e-voting. The detailed procedure for obtaining login ld, password, authentication and exercising remote e-voting is already provided in the Notes to the Postal Ballot Notice. The Members are requested to refer to the same. Those Members, who have not updated their email addresses with the Company are advised to follow the procedure given in note (d) below.

Members holding shares in Physical mode and who have not updated their email addresses with the Company can obtain Postal Ballot Notice and/or login details for remote evoting by writing to the Company at investor redressal@paulmerchants.net or to the RTA of the Company at ramap@alankit.com. For registration of email Id with the Company please provide necessary details vide Form ISR-1 prescribed by SEBI vide Circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03.11.2021 along with prescribed documents by email to Company at investor.redressal@paulmerchants.net or to the RTA at ramap@alankit.com. The said form is available on the website of the Company i.e. www.paulmerchants.net under Investors section. Any Member who has not received the Postal Ballot Notice, can download the same from the weblink https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wpcontent/uploads/2022/02/Postal-Ballot- Notice.pdf and follow the instructions given in the Notes for obtaining the Login details. Members holding shares in Demat mode, please update your email id & Demat mode, please your email id & Demat mode,

 Members, who have not received postal ballot Notice may apply to the company by writing to investor redressal@paulmerchants.net or can visit the website of the Company at www.paulmerchants.net.

The Postal Ballot Notice has been displayed and can be downloaded from the website of the Company under weblink https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2022/02/Postal-Ballot-Notice.pdf. Postal Ballot Notice has also been displayed on the website of CDSL i.e. the Agency providing the services of e-voting, at https://www.evotingindia.com and on the website of BSE Ltd at www.bseindia.com.

Mr. Kanwaljit Singh Thanewal, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 5901 and CP No. 5870), SCO 64-65, Sector 17 A Chandigarh has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the process of Postal Ballot through remote e-voting in a fair and transparent manner.

The results of the Postal Ballot through e-voting process shall be declared on or before Thursday, March 31, 2022 at 17:00 hours (IST) at Corporate Office of the Company at SCO 829-830, Sector 22-A, Chandigarh - 160022. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company (www.paulmerchants.net) and on the website of CDSL (https://www.evotingindia.com) immediately after the result is declared and shall simultaneously be forwarded to BSE Ltd., where the Company's shares are listed. The result of the voting, with details of the number of votes cast for and against the Resolution, invalid votes and whether the Resolution has been carried or not shall also be displayed on the Notice Boards of the Company at its Registered Office at New Delhi and its Corporate Office at Chandigarh.

If Members have any queries or issues regarding Postal Ballot through remote e-voting process, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 022-23058738, 022-23058543 or 022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013. Members may also contact Mr. Hardam Singh, Company Secretary cum Compliance Officer of the Company at investor.redressal@paulmerchants.net or at 0172-5041760 or Fax 0172-5041713 or at PML House, SCO 829-830, Sector 22-A,

Chandigarh - 160022. Date: February 22, 2022 For PAUL MERCHANTS LTD Place: Chandigarh

AXIS MUTUAL FUND

Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. TEL: (022) 4325-5161, FAX: (022) 4325-5199, EMAIL: customerservice@axismf.com, WEBSITE: www.axismf.com, EASYCALL: 1800 221 322 ADDITIONAL CONTACT NUMBER: 8108622211

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability

Risk Factors: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes. Mutual Fund

restricted to ₹ 1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC)

Ward No. 62, Kabir Chowk, Tehsil Katghora, Kusmunda, Korba

Chhattisgarh, - 495454, will shift to Ward No. 4, Katghora Road, Beside ICICI Bank, Dipka, Korba Chattisgarh - 495445 from 31st May The Customers are requested to

contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our Raigarh **Branch** located at Krishna Shopping Mall, Sarangarh, 3rd Floor, Shop No 37 to 39, Raigarh - 496001, will shift to 2nd Floor, Aditya Business Park Opposite Modi Plaza, Dhimrapur Road, Jagatpur, Raigarh, Chattisgarh- 496001 from 31st May 2022.

The Customers are requested to contact the new office premises for

their needs. **REGIONAL BUSINESS HEAD**

financi<mark>alexp.epap</mark>

Place: Mumbai

No.: 84/2021-22

Date: February 22, 2022

Earlier, Invesco, which,

17.88% stake in ZEEL, had moved courts alleging corporate The company has filed an governance issues in the enterinterlocutory application before tainment firm. SHRIRAM SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED

PUBLIC NOTICE This is to inform our customers and

Dhaiya, Dhanbad, Jharkhand 826004 from 31st May, 2022. The Customers are requested to

contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

and hence is sub-judice, it added. together with its subsidiary OFI Global China Fund, hold a

facility advanced to Siti Net-

works, a unit of ZEEL. The issue

public at large that our **Dhanbad** Regional Office located at Room No -201, 2nd Floor, Shriram Plaza, Bank More, Chhindwara, Jharkhand-826001, will shift to 1st Floor, Room No - 10 & 11, Akash Emase Tower, Opposite SBI Bank, Main Road,

S.No. of the company's alleged default is pending before the Delhi HC, e-Bid Portal (website) Name of Work

e-Tender Cost Earnest money deposit (EMD) Rs. 10000/- (Rs. Ten Thousand only) Document downloading/ sale 22.02.2022, 15.00 Hrs. date start

e-Tendering Notice no.

e-Bid submission start date e-Bid submission end date

Particulars

Document sale end date/time 07.03.2022, 15:00 Hrs 07.03.2022, 15:00 Hrs Opening date of e-bid part-I 09.03.2022, 16:00 Hrs

11 Opening date of e-bid part-II To be notified later Bid shall be accepted through the e-tender portal. Tender issuing authority

recipient due to any problem in accessing the e-tender website. The tender issuing authority is also not responsible for delay in uploading bids due to any problem in the e-tender website. UPPCL reserves the right to reject any or all proposals or cancel the bid

is not responsible for the delay/ downloading of tender document by the

without assigning any reason thereof. Sd/-

Chief Engineer (Level-2) RAPDRP-A/IT

NOTICE

Declaration of Distribution (of Income & Capital) (previously Referred As Dividend) Under Various Schemes of Axis Mutual Fund

संख्या- 55/ज.स./पाकालि/2022 दिनांकः 22.02.2022

Axis Mutual Fund Trustee Limited, Trustee to Axis Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of Distribution (of Income & Capital) (previously referred as dividend) under the Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) option(s) of following schemes, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme(s)/ Plan(s)	Quantum of IDCW (₹ per unit)*	Record Date*		NAV as on February 21, 2022 (₹ per unit)
Axis Equity Hybrid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW	0.10	8		14.56
Axis Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW	0.10	February	10	13.66
Axis Equity Saver Fund - Direct Plan - Monthly IDCW	0.09	28, 2022		13.21
Axis Equity Saver Fund - Regular Plan - Monthly IDCW	0.09			12.10

As reduced by the amount of applicable statutory levy, if any. or the immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the above stated IDCW option(s) of the scheme(s)/plan(s)

would fall to the extent of payout and statutory levy, if any. The Distribution would be paid to the beneficial owners / unit holders whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the depositories under the said scheme(s)/plan(s) at the close of business hours on the record date and to the unit holders holding units in physical form, whose names appear in the Register of unit holders maintained with Registrar

and Transfer Agent under the IDCW option(s) of the scheme(s)/plan(s) as at the close of the business hours on the record date. Investors may kindly note that declaration of Distribution is subject to availability of distributable surplus on the record date/ ex-distribution date. In case the distributable surplus is less than the quantum of Distribution on the record date/ex-distribution date, the entire available distributable surplus in the aforesaid scheme(s)/plan(s) will be declared as Distribution. Investors are requested to kindly take note of the above.

> For Axis Asset Management Company Limited (CIN - U65991MH2009PLC189558) (Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Sd/-Chandresh Kumar Nigam Managing Director & Chief Executive Officer

New Delhi

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

HARDAM SINGH

मैं, ओरियन्ट बल्क कैरियर पता 106, नवजीवन चंम्बर, सी-स्कीम, विनोबा मार्ग, जयपुर ऑडिटर : सी.ए . कालानी एण्ड कम्पनी, जयपुर

ऋण वस्ती न्यायाधिकरण-।, दिल्ली

चतर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग. नई दिल्ली-110001

ओ. ए नं. 447 / 2020 पंजाब नैशनल बैंक

प्रतिवादी 1

 श्रीमती सुप्रिया शर्मा पुत्री श्री हिर दत्त शर्मा, 313, माउंट कैलाश, डीडीए टॉवर-1, ततीय तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरूद्ध रुपये 29,96,574.05 (रु. उनतीस लाख

चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी

रिकवरी ऑफिसर-।। द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT की आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। पब्लिक नोटिस हेड के तहत पोर्टल अर्थात "drt.gov.in"

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मोहर

उल्लेखित फोन नंबर के तहत संपर्क कर सकते

drt1delhi-dfs@nic.in

(a) pnb Housing

Finance Limited

अचल संपत्ति / यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(६) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी-बिक्री सूचना

Char Ki Baat पंजीकृत कार्यालयः 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली— 110 001, फोनः—011—23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

एतदुद्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या–ए में इंगित किया गया है, को सुचित किया जाता है कि कॉलम संख्या–डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां) जो प्रतिभुत ऋणदाता के पास बंधक / प्रभारित हैं, जिनका रचनात्मक / भौतिक कब्जा मै. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल) / प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, "जैसी **हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार"** पर बेचा जाएगा। एतद्वारा उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / संबंधित उधारकर्ताओं / बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद सें) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों) कॉलम संख्या-ए में निदर्षितानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संषोधित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत सुचित किया जाता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपय

शाखा पताः 36, भूतल, ब्लॉक, पूर्व मेट्रो स्टेशन, मकान सं. बी–1, जनकपुरी, दिल्ली, 110058, ई–मेलः jankapuri@pnbhousing.com

ऋण संख्या/ उधारकर्ता/ सह—उधारकर्ता / गारंटर(रॉ)/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	कब्जा की प्रकृति (सी)	बंधक संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जें)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/ न्यायालयी मामले, यदि कोई, (कें)
00316700001374 स्काईलाइन इन्फ्राटेक प्रा. लि., अनिल कुमार वासवानी, कृष्णा वासवानी, साईं कम्प्यूनेट एण्ड आईटी सर्विसेज प्रा. लि. , कोमल वासवानी एवं लीलाराम सेवक वासवानी	14.08.2018 के	भौतिक	c,	(रुपए चार करोड़ सतहत्तर लाख	10.00		্চ. 1,00,000 / —	02—03—2022 11.00 बजे से 5:00 बजे	11—03—2022 11.00 बजे से 2:30 बजे तक	**शृन्य / अज्ञात

*आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागु हो, भुगतान और / या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार आदि के साथ। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या—के में जो खुलासा किया गया है, उसके अलावा उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अलावा, इस तरह के ऋणभारों को सफल क्रेता / बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से परा / भगतान किया जाना है। संभावित खरीददारों / बोलीदाताओं से अनरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगाएं।

(2) संभावित खरीदार / बोलीदाता और इच्छुक पक्ष निविदा / बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध हकदारी दस्तावेजों की हकदारी सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं–के में वर्णित, की कार्यवाहियों / पारित आदेषों इत्यादि, यदि कोई, में अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर बोली

(3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(ओं) / खरीदार कानूनी रूप से उसी दिन अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25: (धरोहर राशि सहित, यदि कोई, जमा की गई हो) जमा करने के लिए बाध्य हैं। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25: प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75: बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस तरह के जमा के डिफॉल्ट होने पर, संपत्ति / प्रतिभुत परिसंप

(4) मै. श्रीराम ऑटोमॉल इंडिया लिमिटेड (एसएएमआईएल) (विक्रेता के नाम का उल्लेख करें), प्राधिकृत अधिकारी को ई—नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालित करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त कर से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए आपको श्री सचिन बेदरकर 07600099463 या श्री लिलत दहिया 9311833234ए पीएनबीएचएफएल के प्राधिकत व्यक्ति के साथ समन्वय करना हो। स्थानः जनकपुरी, दिनांकः 22.02.2022

Roshanara Club Ltd. Roshanara Garden, Delhi - 110007 CIN:U91990DL1901PLC000098

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Company shall be held at the Registered Office of the Company at Roshanara Garden, Subzi Mandi, Delhi - 110007 on Wednesday the 23" March 2022 at 2.00 PM to consider the alteration in Articles of Association of the Company. Separate notice to all members is being dispatched by 1" March 2022.

By Order of Board For Roshanara Club Limited Secretary

Place: Delhi Date: 23rd February, 2022

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NOTICE EuTech (India) Pvt. Limited

Form no INC-26

[[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another. Before the Central Government Northern Region.

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND In the matter Eutech (India) Private Limited having its registered office at BF-C-6 DDA Flats Munirka New Delhi DL 110067 IN.

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extraordinary general meeting held on to enable the company to change its Registered office from "State of Delhi" to "State of Uttarakhand".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO complex, New Delhi -110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

Dt.:11.02.2022

For and on behalf of the Applicant, Asheesh Pawanjai (Director)

अंचल कार्यालय, 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभृत क्रेडीटर लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लि. तथा श्री नवीन चौधरी, श्रीमती अमीता चौधरी एवं मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. (पूर्व में एनएमसी ओवरसीज लि. विदित) से धनलक्ष्मी बैंक लि. प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 28,86,23,798.50/-(रुपये अट्ठाईस करोड़ छियासी लाख तैईस हजार सात सौ अन्ठानवे एवं पैसे पचास मात्र) की वसूली के लिये 14.3.2022 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 5,23,00,000/- (रुपये पांच करोड़ तैईस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु.

विवरण के साथ सम्पत्ति का पता

ग्राम धमोला, परगणा भवर कोटा, तहसील कालाधुंगी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में मै. एनएमसी बायो फार्म प्रा.लि. के नाम में परिसर के भीतर पड़ी प्लान्ट एवं मशीनरीज जो धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के पास प्रभारित नहीं है, को छोड़कर खसरा नं. 465/1, 466, 467/1, 468, 492/2, 496/1, 497, 498, 499, 501, 502/1, 503, 504, 505, 521/2, 522, 523, 524 एवं 500 के अंतर्गत बिल्डिंग जिसमें गार्ड रूम (एक तल) गेस्ट रूम ब्लॉक (एक तल), मैन ब्लॉक बिल्डिंग फ्रान्ट (जीआर+2 आरसीसी स्लैब + 3रा तल-जीआई शेड) दूसरा ब्लॉक रीअर (जीआर तल-आरसीसी स्लैब + प्रथम तल-जीआई शेड) शामिल है, के साथ अचल भूमि की सम्पत्ति माप-7.5 एकड़।

चौहदीः पूर्वः 20'-0' चौड़ा लिंक पिच रोड, पश्चिमः बग्गाराम की भूमि उत्तरः शिव कुमार की भूमि, दक्षिणः हिमैक्स नैच्युरल्स प्रा.लि. फैक्ट्री

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.dhan-

तिथि: 22.02.2022 धनलक्ष्मी बैंक लि.

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

परिषिष्ट-IV-ए

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल), प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

(1) तिथि के अनुसार पीएनबीएचएफएल के प्राधिकत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों /प्रतिभत परिसंपत्तियों की बिक्री अलगाव और /या निपटान करने से रोकने का और /या अदालती प्रतिबंध का कोई आदेश

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

Mahindra

पंजिकत कार्यालय:-साधना हाउस, द्वितिय तल,570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मम्बई-400018 दरभाष:-022 66523500 फॅक्स:022 24972741,CIN:U65922MH2007PLC169 क्षेत्रीय कार्यालय:-प्रथम तल,दीपक प्लाजा, 7ए/2, संजय नगर ए, जोशी मार्ग के पास, मैक्स हॉस्पीटल के सामने, मेन कालवाड रोड जयपर-302012

नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभत ऋणों की वसली के उद्देश्य से प्रतिभति हित अधिनियम , 2002 के अंतर्गत महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधित अधिकारी द्वारा ऋण की ओर बक धनराशि की बसुली हेतु निम्न वर्णित प्रतिभृत आस्तियों का आधिपत्य लेने के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अचल सम्पत्ति, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है । जो भीतिक आधिपत्य में है , के ''जहाँ है , जैसी है और जो है ''के आधार पर क्रय हेतु सीलबंद लिफाफों में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं । जिसका विवरण निम्नानुसार है

सरक्षित अर्चल सम्पत्ति का विवरण

ऋणी (यॉं)/ जमानतदा(रो)	दिनांक एवं बकाया राशि	सुमान्त अन्तर सम्मान का विवरण सम्पत्ति के सभी अभिन अंग स्थित प्लॉट नंबर मं.31-ए, बालाजी विहार-6 एकसटेशन 1, बेनाड रेलवे स्टेशन के पास,	आराक्षत मुल्य	बरोडर राशि	
ऋणीःइरफान खान सह-ऋणीःइकवाल हुसैन रुकसाना बानां Lan:XSEMJPB00587964	25-07-2020 रू. 24,79,011/- (रूपये चौबीस लाख उनवासी हजार ग्यारह मात्र)	बोईतवाला, बैनाड रोड, जवपुर, राजस्थान क्षेत्रफल 74.6 वर्ग गज सीमाएँ:- पूर्व :पनॉट नंबर नं. U-31, पश्चिम:पनॉट नंबर नं. U-32, उत्तर: पनॉट नंबर नं. U-38, दक्षिण: 30 फीट बौदी रोड	枣. 15,42,150/-	क. 1,54,215∕	
ऋणीःजिलांक चंद सद-ऋणीःगायत्री देवी Lan:XSEMAJM00592603	25-07-2020 क. 9,66,543/- (क्रपये नी लाख छिपासठ हजार पांच सी तयालीस मात्र)	सम्पत्ति के सभी अभिन्न औग स्थित पञ्च नं. 06, बुक नं 84, गांव बुबानी, पी.एस. शीनगर, जिला अजमेर, राजस्थान, क्षेत्रफल 175.00 वर्गगत सीमाई:- पूर्व :सरदार का खेत व रास्ता, पश्चिम:भवरलाल का बाद्दा , उत्तर: भवरलाल का खेत ,दक्षिण: रास्ता	阪. 13,38,750/-	枣. 1,38,875	
हणीःचेनका सन्त्रा क. 19,27,801/- नं. 3478/361, श्री गणपति विहार, ग्राम-कलेस वह-माणीःओप कुगार धंका (रूपये उन्नीस विसांगन, अजमेर, राजस्थान-305204 , क्षेत्रफान 2		सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंगस्थित प्लॉट गं. 19,20, 21, खसरा नं. 3478/361, श्री गणपति विहार, ग्राम-कलेसरा, तह. पिसांगन, अजमेर, राजस्थान-305204, क्षेत्रफत 2700.00 वर्गफीट सीमाएँ:- पूर्व :अन्य संपत्ति , पश्चिम:30 फीट चीड़ी सदक , उत्तर: प्लॉट नं. 18,दक्षिण: अन्य संपत्ति	板. 2,20,000/-	₩. 22,000	
ऋणीःपृज्य सह-ऋणीःदुगैज Lan:XSEMAJM00455671	21-10-2021 रू. 14,11,407/- (रूपये चौदह लाख ग्यारह हजार चार सी सात मात्र)	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित प्लॉट गं. 22, 23, 24, खसरा नं. 3479/361,श्री गणपित विद्वार, ग्राम पिसांगन, अजमेर, राजस्थान 305204, क्षेत्रफल 2700.00 वर्गफीट सीमाएँ:- पूर्व :अन्य संपत्ति , पश्चिम:30 फीट चीड़ी सड्क , उत्तर: फ्लॉट नं. 21,दक्षिण: फ्लॉट नं. 25	枣. 1,35,000/-	板。13,500/	
ऋगीः नवीन कुमार सह-ऋणीः सोनिका जाटय Lan:XSEMAJM00283643	21-10-2021 रू. 3,90,959/- (रूपये तीन लाख नब्बे हजार नी सी उनसठ मात्र)	सम्पत्ति के सभी आभिन्न अंग स्थित प्लॉट वं. 49, खसरा वं. 3477/361 का भाग,श्री गणपति विहार, ग्राम कालेसरा, तहः पिसांगन, अजमेर, राजस्थान -305204, क्षेत्रफान 1188.00 वर्गफीट सीमाऍ:- पूर्व :प्लॉट वं. 47, पश्चिम:30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर:30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण:अन्य संपत्ति	鞆. 71,000/-	रू. 7,100∕-	
कर्णाःचीन् कुमारी म्ड-अस्पीःरवि खुमार Lan:XSEMAJM00564543	21-10-2021 रू. 13,25,572/- (रूपये तेरह लाख पच्चीस हजार पांच सौ बहत्तर मात्र)	सम्पत्तिकं सभी अधिन्त अंगस्थित प्लॉट नं. 14 से 17, खसरा नं. 3477/361,औ गणपति विहार, ग्राम कालेसरा पी.एस. पिसांगन, अजमेर, राजस्थान-305204, क्षेत्रफल 3084.00 वर्गफोट सीमाएँ:- पूर्व :अन्य संपत्ति, पश्चिम:30 फीट बौदी सङ्क , उत्तर:अन्यसंपत्ति ,दक्षिण: प्लॉट नं. 18	₹. 55,000/-	₩. 5,500/-	
ऋणी:नरंश कृपार सह-ऋणी:कुसुम Lan:XSEMAJM00574139	25-07-2020 रू. 8,26,332/- (रूपये आढ लाख छब्बीस हजार तीन सी बलीस मात्र)	सम्पत्ति के सभी अधिन अंग रिश्चन पद्म नं. 1305, पद्म सीरियल नं. 5, सूक नंबर 7, पिसल नं.5, ज्ञाम गांठदा, जी.पी. मांडल जोधा, पी. एस. डंगामा, जिला नागीर, राजस्थान, पिनकोड- 341503 क्षेत्रफल 870.00 वर्गफोट सीमाई:- पूर्व :अहमद अली का मकान , पश्चिम:आम रास्ता और निकला , उत्तर:रामेश्चर लाल दरांगा का मकान, दक्षिण: अशोक कुमार शर्मा का मकान	歌. 6,10,000/-	板. 61,000/	
क्ष्मी:राम निवास सह-ऋणी:चाक् देवी क्रमानतदार:बाला देवी Lan:XSEMAJM00804470	25-07-2020 रू. 6,65,493/- (रूपये छ: लाख पेसठ हजार चार सी तेरानवे मात्र)	सम्पत्ति कं सभी अभिन्न अंग स्थित पट्टा नं 445, बिछला बास, गांव निकरी कांठारिया, जी.पी. निकारी कला, पी.एस. इंगाना, जिला नागीर, पिनकांड 341503 क्षेत्रफल 970.00 वर्गफीट सीमाई:- पूर्व :आम रास्ता, प्रक्रियम: उग्र राम राम किशन का मकान , उत्तर:आम रास्ता,इक्षिण: गिरधारी रामका मर	₹5. 6,63,300/-	新. 36,330/	
क्वी:गंगाली सह-ऋणी:अज्ञांक Lan:XSEMAJM00711135	25-07-2020 रू. 9,26,378/- (रूपचे नो लाख छळीस हजार तीन सी अठहत्तर यात्र)	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिश्वन प्लॉट नंबर 50, सुक नंबर-17, संकल्प सांख्य-02, जी.पी. बाजवास, पी.एस. परवनसर, जिला नागीर, राजस्थान क्षंत्रफल 80.50 वर्गगत सीमाई:- पूर्व:आम रास्ता , पश्चिम: रामगोपाल भारविद्या का नंहरा , उत्तर:बीरमाराम/नारायण जाट का मकान ,दक्षिण: शंकर राम/ जेटाराम जाट का साडा	枣. 99,400/-	₩. 9,940/~	

1.उपरोक्त बर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर निर्धारित निविदा प्रारूप में ईएमडी एवं केवायमी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 25.03.2022 सार्य 5.00 वजे तक रहेंग निविदाएं जो पूर्णत: विधिवत रूप से भरी नहीं जावेंगी अथवा निविदाएं जो अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगी ए को वैध निविदा के रूप में स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तदनसार निरस्त कर जावेंगी । ईएमडी पर कोई ब्याज देव नहीं होगा ।(2) उपरोक्त वर्णित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर प्रस्ताव खोलने कि तिथि एवं 26.03.2022 को प्रात: 11.00 से दोपहर 1.00 बजे हैं , निविदा प्राधिकत अधिकारी की उपस्थित में खोला जावेगा ।(3) संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 05.03.2022 को प्रात: 11 बजे से दोपहर01.00 बजे के बीच है।(4)ऋणी एवं जमानतदार एतदनुसार विक्रय के समय व्यक्तित रूप से उपस्थित होने के लिए सुचित किया जाता है एवं वे ए विक्रय के निवम एवं शर्तों के अनुसार ए उपरोक्त नुसार वर्षात अचल सम्पत्ति को क्रय करने के नि व्रस्तावित क्रेतागण को साथ ला सकेंगे । 🤇 5) यह 30 दिनों का विक्रय गोटिस सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आप तौर पर जनता विशेष रूप से उधाकर्ता 🗸 ऑं , सह- उधारकर्ता ओ / जमानतद को दिया जाता है कि उपर वर्णित अञ्चल संयत्ति को सरक्षित लेनदारों के पास बंधक / प्रधारित किया गया है । पहिन्दा करल हार्विय फाइनेंस लिपिटेड (MRHFL)सरक्षित लेनदार के प्राधित अधिकारी द्वारा करूजा ले लिया है। जिसे जहां है जैसी है तथा जिस अवस्था में है और महिन्द्रा करल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बकाया राशि के आधार पर बेचा जाएगा, बिक्री की तारीर पहले पूर्ण रूप से नीलामी विज्ञापन रोक्टे जाने के लिए उत्तरदायी है ।(६) अचल सम्पन्ति को सबसे ऊंची निविदा (बोली) लगाने वाले को विक्रय किया जावेगा । हालांकि अधोहस्तारकर्ता अन्तर बोली (निविदा), यदि आवश्यक हो तो को स्वीकार करने का एकमेव विवेकाधिकार रहेगा ।दी गई संपत्ति का विक्रय आरक्षित मुख्य से कम राशि पर नहीं होगा ।(7)MRHFL उपर दर्शाची गई संपत्ति के उपर किसी भी प्रकार के देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा । संपत्ति की नीलाभी जहां है जैसी है, जो है तथा जिस अवस्था में है के आधार पर की जायेगी ।(8) डिम डाफ्ट महिन्ता करल हार्जीसग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बनाए जाएंगे ।(🤫) नीलामी विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्ते निर्धारित निविदा प्रारूप में समाधिष्ट की गई हैं । निविदा प्रारूप उप क्षेत्रीय कार्यालय पर उपलब्ध हैं । प्राधिकार अधिकारी के पास निविदा की निधि बढ़ाने एवं प्रस्ताव के निथम व शर्ता में परिवर्तन करने का अधिकार सरक्षित रहेगा । बोली की अन्य निवम एवं शर अन्य जानकारी हेत् हमारी शाखा या वेक्साईट www.mahindrahomefinance.com पर जाए । अधिक जानकारी के लिए प्राधिकत अधिकारी से उपरोक्त पते पर संपर्क करें ।

(प्राधिकत अधिकारी), महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

्री वैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda FREEZE ED - (101)

राजिन्दर नगर, गाजियाबाद

शाखा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002


के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी. उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन एवं प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है. उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा

कर्जदार/गारन्टर के नाम	मांग सूचना की तारीख	सिक्योर्ड		
एनपीए की तारीख	बकाया राशि	आस्तियों का विवरण		
कर्जदारः श्री हरबख्श सिंह आनंद पुत्र श्री स्वर्गीय मदन सिंह आनंद, मकान न. जे 215, पटेल नगर —1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005 गारंटरः श्री बलबीर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, पटेल नगर—1, राजिन्दर नगर, औद्योगिक क्षेत्र, मोहन नगर, गाजियाबाद, 201007	04-02-2022 इ. 7,40,718.95/- (दिनांक 31.01.2022 तक ब्याज की गणना)	वाहन का दृष्टिबंधक टोयोटा इनोव वीएक्स, ग्रे रंग पंजी. नं.— HR26CN5302 चेसिस नं.— MBJ11JV4007515771 इंजन नं.— 2KDU720265		
ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथिः 31-12-2018				

अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें

दिनांक : 22.02.2022, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा



रिमोट ईवोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाकीय मतपत्र की सूचना

मैसर्स पॉल मर्चेंट्स लिमिटेड के शेयरधारकों को एतदहारा सुचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("प्रबंधन नियम") के नियम 20 और नियम 22 के साथ पंटित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 44 तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए सर्कुलर") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जुन, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जुन, 2021 और 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021 और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा जारी किए गए, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होना शामिल है, के अंतर्गत डाकीय मतपत्र सुचना में निहित प्रस्तावों को सामान्य परिपत्र 14/2020 दिनांक 08.04,2020 और सामान्य परिपन्न सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित अधिनियम के लागू प्रावधानों की अनुपालना शेयरधारकों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से वीटिंग द्वारा पारित करना प्रस्तावित है। नीटिस में निर्धारित रिमोट ईवीटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष व्यवसाय को कंपनी के निदेशक के बोर्ड दारा अपरिहार्य माना गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों सहित सदस्यों, निदेशकों और लेखा परीक्षकों को अनुमति प्राप्त विधि यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्वात्मक विवरण के साथ हाकीय मतपत्र नोटिस के प्रेषण 22 फरवरी, 2022 को पूरा कर लिया गया है।

कंपनीत (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय समय पर संशोधित, के नियम 20 व 22 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (आपित्यों के सुचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 108 व 110 के प्रावधानों की अनुपालना में सदस्यों को एतदहारा सचना दी जाती है कि कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक विधि हारा वोट के अधिकार का प्रयोग करने हेतु सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है और व्यापार सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से संपादित किया जा सकता है।

ई-योटिंग के लिए निर्देश डाकीय मतपत्र सचना में दिए गए हैं। सदस्यों से निम्नलिखित नीट करने का अनुरोध है:

क. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 28 फरवरी, 2022 (प्रात: 9.00 बने आईएसटी) शुरू होगी और मंगलवार, 29 मार्च, 2022 (साय: 5.00 बने आइएसटी) बंद होगी। ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद सीडीएसएल द्वारा असक्षम कर दिया जाएगा और कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमात नहां दा जाएगा।

ख्य. सदस्यों को वोटिंग अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग) शुक्रवार, 18.02.2022 (कार्यालय समय के समापन) ("कट-ऑफ तिथि")

को कंपनी की भुगतान इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में कर सकेंगे। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट-ऑफ तिथि (व्यापार समय का समापन) के रूप में दर्ज किया गया है, डाकीय मतपत्र नोटिस प्राप्त करने और रिमोट ई-चोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार है। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक नहीं है, उसे डाकीय मतपत्र नोटिस को केवल सचना के उद्देश्य से मानना चाहिए। म. कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को भौतिक विधि में शेयरधारक है वह कंपनी के आरटीए मैं, अलंकित असाइनमेंट्स लि., 1ई/13, झंडेवाला एक्स्ट.,

नई दिल्ली-110055 (भारत) फोन नं. 011-42541959, ईमेल आईडी ramap@alankit.com या कंपनी को ईमेल आईडी investor.redressal@paulmerchants.net पर अनुरोध भेजने द्वारा लॉग इन आईडी व अनुक्रम सं, प्राप्त कर सकते है। वे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार डीमैट मोड में शेयर रखते हैं, ई-वोटिंग से संबंधित निदेशों के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net या सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर कंपनी के डाकीय मतपत्र नीटिस को देखने का अनुरोध किया जाता है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रमाणीकरण और रिमोट ई-घोटिंग का प्रयोग करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया पहले से ही डाकीय मतपत्र नोटिस के नोटस में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि ये इसे देखें। जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें नीचे नोट (डी) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी जाती है। भौतिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट नहीं किया है, वे डाकीय मतपत्र नोटिस और रिमोट

इवोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर या कंपनी के आरटीए को ramap@alankit.com पर लिखकर प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के साथ ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए, कृपया निर्धारित दस्तायेजों के साथ परिपत्र सं SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम सेबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 के माध्यम से ईमेल द्वारा कंपनी को investor.redressal@paulmerchants.net पर वा आरटीए को ramap@alankit.com पर आवश्यक विवरण प्रदान करें। उक्त प्रपत्र कंपनी की येबसाइट अर्थात www.paulmerchants.net पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। कोई भी सदस्य जिसे डाकीय मतपत्र नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे इसे वेयलिक https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wp-content/uploads/2022/02/Postal-Ballot-Notice.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं और लॉग इन विवरण प्राप्त करने के लिए टिप्पणियों में दिए गए निर्देश इसका पालन कर सकते हैं। डीमैट मोड में शेयर धारक करने वाले सदस्य, कृपया अपनी ईमेल आईडी और एएमपी; मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपडेट करें।

इ. जिन सदस्यों को डाक मतपत्र की सूचना नहीं मिली है, ये investor.redressal@paulmerchants.net पर लिखकर कंपनी में आवेदन कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट www.paulmerchants.net पर जा सकते हैं।

डाक मतपत्र की सूचना को प्रदर्शित किया गया है और वैवलिक https://www.paulmerchants.net/paulmerchants/wpcontent/uploads/2022/02/Postal-Ballot-Notice.pdf के अंतर्गत कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। डाक मतपत्र की सुचना सीडीएसएल अर्चात ई-बोटिंग की सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट https://www.evotingindia.com तथा बीएसई लि. की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है। कंपनी के निदेशकों के बोर्ड ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र की प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए

संवीक्षक के तौर पर श्री कंवलजीत सिंह थाणेवाल, पेशेयर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस नं. 5901 तथा सीपी नं. 5870) एससीओ 64-65, सैक्टर 17-ए, चंडीगढ़ को नियक्त किया है। रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से डाकीय मतपत्र की परिणाम वीरवार, 31 मार्च, 2022 को 17.00 बजे (आईएसटी) कंपनी के सर्वृक्त कार्यालय एससीओ

829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 में घोषित किया जाएगा। संबोधक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तूरंत परिणाम घोषित करने के बाद कंपनी की येबसाइट (www.paulmerchants.net) और सीडीएसएल की येबसाइट (https://www.evotingindia.com) पर डाले जाएंगे और उसके साथ बीएसई लि. जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं, भेजे जाएंगे। प्रस्ताव के पक्ष और विरोध में डाले गए वोट की संख्या के साथ वोटिंग का परिणाम, अवैध वोट तथा प्रस्ताव निष्पादित किया या नहीं किया गया, कंपनी के नोटिस बोर्ड स्थित पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली और संयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। डाक मतपत्र और ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी पूछताछ या मामले की स्थिति में आप फ्रीक्वेंटली आक्स्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") तथा

www.evotingindia.com पर हैल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मेन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 022-23058738, 022-23058543 या 022-23058542 से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वीटिंग से संबंधित किसी समस्या की स्थिति में श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैरायन फ्यूचरेक्स, माफतलाल मिल कंपाऊइस, एनएम जोशी मार्ग, लॉअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से संपर्क करें। सदस्य श्री हरदम सिंह, कंपनी के कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी से investor.redressal@paulmerchants.net या 0172-5041760 या फैक्स नं. 0172-5041713 या पीएमएल हाउस, एससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022 पर संपर्क कर सकते हैं। कते पॉल मर्चेट्स लिमिटेड

हस्ता./- हरदम सिंह,

तिथि: 22 फरवरी, 2022

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी,

पंजाब नैशनल बैंक

दिनांक: 22.02.2022 स्थान:राजस्थान



punjab national bank ...the name you can BANK upon! निगमित कार्यालयः भूखंड सं. ४, सेक्टर—10, द्वारका, नई दिल्ली—110075 शाखा कार्यालयः सर्कल सस्त्र केंद्र पताः भूखंड सं. 5, इंस्टिट्यूशनल एरिया, सेक्टर—32, गुरुग्राम—122001 ईमेल : cs8230@pnb.co.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, को संबंधित उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय—भुग्तेय इसकी / इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए यहां इसमें निम्न तालिका में वर्णितानुसार तिथि पर ''जैसी है जहां है, ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा जो है वह संबंधित संपित्त्तियों के समक्ष निम्न तालिका में वर्णितानुसार होगी।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की अनुसूची

लाट सं.	खाता का नाम उधारकर्ता / गारंटर खाता के नाम एवं पते	बंधक अचल संपात्तया का विवरण/स्वामा का नाम (संपात्त/या क बंधककर्तागण)	के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि ख) दिनांकके अनुसार बकाया राशि ग) सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा तिथि घ) कब्जा की प्रकृति— प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	छ) बोली वृद्धि राशि	इ—नालामा की तिथि/ समय	प्रातमूत ऋणदाताओं को ज्ञात भारग्रस्तताओं के विवरण
1.	पीएनबीः सोहना मैसर्स साई इलेक्ट्रिकल्स, ए—54, गणपित प्लाजा, भिवाड़ी, जनपद अलवर—301019 (पार्टनर और गारंटर): 1. श्री नरेंद्र चौहान पुत्र श्री बिशम्बर सिंह, ग्रामः गुघरा, तहसील—फारुखनगर, गुरुग्राम, 2. श्री प्रमोद चौहान पुत्र श्री बिशम्बर सिंह, ग्रामः गुघरा, तहसील—फारुखनगर, गुरुग्राम (गारंटर और बंधककर्ता)ः श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री बिशम्बर सिंह, खेवट नं. 126, निकट बीकेटी इंडस्ट्रीज, चौहान कॉलोनी, ग्राम—बिलाहेड़ी, तहसील तिजारा, जनपद— अलवर	श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री बिशम्बर सिंह के नाम में ग्राम बिलाहेडी, तहसील— तिजारा, जनपद अलवर, खेवट सं. 126, मापन क्षेत्र 250 वर्ग गज, में स्थित आवासीय सम्पत्ति (संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	क) 18.09.2017 ख) रु. 33,35,967.10 दिनांक 30.09.2020 के अनुसार और साथ में 01.10.2020 से प्रभावी भावी ब्याज और शुल्क ग) 11.10.2019 घ) भौतिक	छ) ⊽. 50000 ∕ −	15.03.2022 11.00 ਕਯੇ सੇ 04.00 ਕਯੇ	्रज्ञात नहीं है
2.	पीएनबी: न्यू रेलवे रोड, गुरुग्राम श्रीमती सुधा देवी थपलियाल एवं श्री अश्विनी कुमार क्यू—501, जेएमडी गार्डन, सोहना रोड, सेक्टर—33, गुरुग्राम—122003 412ए, आईएलडी ट्रेड सेंटर, सेक्टर—47, सोहना रोड, गुरुग्राम—122018	श्रीमती सुधा देवी थपलियाल पत्नी श्री अश्विनी कुमार के नाम में संपूर्ण कार्यालय स्थल जो 412ए, चतुर्थ तल, अधिमापन 1216.03 वर्ग फुट (अधिक्षेत्र) छताधिकारों के बिना, आईएलडी ट्रेड सेंटर, सेक्टर—47, सोहना रोड, गुरुग्राम में स्थित है (संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	क) 02.02.2019 ख) रु. 24,38,294 /— दिनांक 31.01.2019 के अनुसार और साथ में भावी ब्याज और अन्य शुल्क ग) 16.04.2019 घ) भौतिक	ভ.) ফ. 59.40 লাख च) ফ. 5.94 লাख छ) ফ. 50000/—	15.03.2022 11.00 बजे से 04.00 बजे	ज्ञात नहीं हैं
3.	उद्योग विहार, गुरुग्राम मै. नेहरू एण्ड जनक फूड एण्ड बेवरेजेज कं., मुख्य गुड़गांव—बादली मार्ग, निकट एम्स, वीपीओ—बदसा, तहसील—बादली, जनपद—झज्जर—124105 यहां पर भीः 24/31, जय विहार, राजेंद्र पार्क, गुड़गांव—122006 श्री कृष्ण कुमार (स्वामी) पुत्र श्री मंगत राम वीपीओ— बदसा, तहसील— बादली, जनपद— झज्जर—124105	आवासीय भूखंड 635.25 वर्ग गज भूखंड जो खेवटः 333—107 मिन., खतौनीः 338, खसराः 1110—21 मिन., 1 कनाल 1 मारला, ग्रामः बदसा, तहसीलः बादली, जनपदः झज्जर—124105 में स्थित है और श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम के नाम में है (संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है) आवासीय भूखंड 605.00 वर्ग गज भूखंड जो खेवटः 360—110 मिन., खतौनीः 304, खसराः 731, ग्रामः बदसा, तहसीलः बादली, जनपदः झज्जर—124105 में स्थित है और श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मंगत राम के नाम में है (संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है)	क) 16.07.2019 ख) रु. 3,38,81,742.09 /— दिनांक 31.01.2019 के अनुसार और साथ में भावी ब्याज और अन्य शुल्क ग) 18.10.2019 घ) प्रतीकात्मक	ভ.) হ্ন. 89.00 লাভ্ৰ च) হ্ন. 8.90 লাভ্ৰ छ) হ্ন. 50000/— ভ.) হ্ন. 85.00 লাভ্ৰ च) হ্ন. 8.50 লাভ্ৰ छ) হ্ন. 50000/—	28.03.2022 11.00 बजे से 04.00 बजे	ज्ञात नहीं है

नियम एवं शर्ते

विक्रय जो है वह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगाः

(1) संपत्तियां जो हैं उन्हें ''जैसी हैं जहां हैं आधार'' और ''जैसी हैं जो हैं आधार'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जा रहा है। (2) यहां इसमें उपरोक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विवरण जो हैं उन्हें यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उल्लेखित किया गया है तथापि प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण—विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

(3) विक्रय जो है वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 15.03.2022 एवं 28.03.2022 को 11.00 बजे वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

(4) विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.ibapi.in,www.tenders.gov.in,www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app का संदर्भ ग्रहण करें। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत संवैधानिक विक्रय सूचना

(वाई के बर्नवाल) प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता

www.readwhere.com

आवेदक मैसर्स अल्मा मेटर मार्केटिंग प्रा. लि. 1. मैसर्स अल्मा मेटर मार्केटिंग प्रा. लि., 304 साउध एक्सटेंशन, प्लाजा-11, 209, मस्जिद

मोठ. नई दिल्ली-110049 और: एस-192. एलजीएफ ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 2. श्री हरि दत्त शर्मा पुत्र स्वं. श्री एसपी शर्मा, 313, माउंट कैलाश, डीडीए टॉवर-1, तृतीय तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065 प्रतिवादी 2

क्रियान्वे हजार पाँच सौ चौहत्तर और पैसे पाँच मात्र) की वसूली हेत् एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 11-04-2022 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्टार के समक्ष उपस्थित होंने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपया डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें) फोन

011-23748473 ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:-एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे; (ii) "रजिस्ट्रार/रिकवरी ऑफिसर-।/और

(iii) किसी भी जानकारी हेत्, एडवोकेटस / लिटिगेंटस संबंधित अधिकारी से फोन 011—23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।

के तहत 21 फरवरी, 2022 को दिया गया। न्यायाधिकरण के आदेशानुसार, कृते रजिस्ट्रार प्रतिवादी उत्तरदाता आगे की पूछताछ के लिए

अमित के. दार, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-। नई दिल्ली, फोन: 011-23748473, ईमेल:

BF-C-6, DDA Flats Munirka New Delhi DL 110067 IN.

Place: Delhi

DhanlaxmiBank 🛚

नियम 8 (6) का प्रावधान देखें:

52,30,000/- (रु. बावन लाख तीस हजार मात्र) होगा।

bank.com में दी गई लिंक देखें।

दिनांक : 22.02.2022, स्थानः गुरुग्राम









